

श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा



देशप्रेमी साथियों,

सर्वविदित है की श्री राजीव भाई जिन्होंने स्वदेशी और स्वावलंबी भारत की स्थापना के लिए प.पू. स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में भारत स्वाभिमान के अंतर्गत विगत दो वर्षों से गाँव-गाँव घूमते हुए लोगों को अपने व्याख्यान से जगा रहे थे | इसी दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में विगत 30 नवम्बर 2010 को अचानक हृदय में खराबी हो जाने के कारण अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया| उनके पार्थिव शरीर को हरिद्वार लाया गया जहाँ भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय कार्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद 1 दिसम्बर 2010 को प.पू. स्वामी रामदेव जी महाराज एवं उनके अनुज प्रदीप दीक्षित जी ने मुखाग्नि दी तथा गंगाघाट पर अंतिम संस्कार किया गया| उनकी अस्थियाँ एवं शरीर के भस्म को स्मृति के रूप में सेवाग्राम लाया गया है |

हम सभी यह जानते हैं की वे विगत 24 वर्षों से आज़ादी बचाओ आंदोलन के बैनर तले भारत के गाँव और शहर दोनों क्षेत्रों में घूमते और व्याख्यान करते आ रहे थे | इससे भारत के लोगों में फिर से स्वदेशी और स्वावलंबी के प्रति रुझान आने लगा था | उन्होंने खुलकर निर्भीकता के साथ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और विदेशी कंपनियों की लूट के प्रति आगाह किया| इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हिल गयी |

जब हमारा स्वदेशी और स्वावलंबन का आंदोलन योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के सानिध्य में और राजीव भाई के नेतृत्व में परवान चढ़ने जा रहा था तभी उनके दुखद निधन से हम राष्ट्रप्रेमियों को गहरा धक्का लगा है |

इसी संबंध में आगामी 9 जनवरी 2011 को सेवाग्राम स्थित कार्यालय में एक सामूहिक श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा और देशप्रेमी साथियों के लिए मित्र-मिलन समारोह का आयोजन किया गया है | जिसमें राजीव भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि और उनके सपनों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचार विमर्श करेंगे |

अतः आप सभी से अनुरोध है की सभा में उपस्थित होकर राष्ट्र के सच्चे सपूत राजीव भाई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें| हम सभी यह जानते हैं की राजीव भाई को सच्ची श्रद्धांजलि का अर्थ है उनके सपनों को पूरा करना| उनका सपना था की भारत फिर से स्वदेशी के रास्ते पर स्वावलंबी बने| भारत का स्वर्णिम काल फिर से लौट आए |

अतः हम सभी देशप्रेमी भाई बहन 9 जनवरी 2011 को सेवाग्राम स्थित कार्यालय में पधारें और राजीव भाई के सपनों को साकार करने के लिए स्वदेशी और स्वावलंबी भारत बनाने का संकल्प लें | धन्यवाद |

नोट : भारत स्वाभिमान एवं आंदोलन के सभी साथीगण -

1. अपने साथ राजीव भाई के संग बिताए गए क्षणों की स्मृतियों को शब्द के रूप में अवश्य लिख कर लाएँ |
2. ठहरने की व्यवस्था सेवाग्राम आश्रम में रखी गयी है | आश्रम के लिए बस स्टैंड एवं स्टेशन से ऑटो रिक्शा चलते है |
3. श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा आंदोलन के कार्यालय 10 जोतवानी ले-आउट में रखी गयी है | जो वर्धा से सेवाग्राम जाने वाले मार्ग पर स्थित है |
4. सेवाग्राम, वर्धा में उत्तर भारत की तुलना में ठंड थोड़ी कम है लेकिन अपनी जरूरत के गर्म कपड़े, स्वेटर एवं कम्बल अपने साथ लाएँ |
5. संभव होने पर अपने पास उपलब्ध राजीव जी के किसी भी व्याख्यान का विडियो(CD, DVD अन्य), उनके चित्र या अन्य उपलब्ध स्मृति अवश्य लेकर आए और उसे पूरे देश में पहुंचाने में हमारा सहयोग करें |

द्वारा: श्री प्रदीप दीक्षित

संपर्क: 098373 42711, 098225 20113, 07152 260041